



***प्रेस विज्ञप्ति**

जनपद मुरादाबाद*

दिनांक-15.07.2022

1- धोखाधड़ी कर फर्जी अंकपत्र के आधार पर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ -

अवगत कराना है कि दिनांक 15.07.2022 को वादी श्रीमति मधुरानी गुप्ता (प्रधानाचार्य) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) कांठ मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 प्रशिक्षण हेतु चयनित फर्जी अंकपत्रों के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में थाना कांठ पर मु0अ0सं0 947/2005 धारा 420/467/468 भादवि0 पंजीकृत कराया था। उक्त के क्रम में उ0नि0 श्री धर्मपाल सिंह थाना कांठ द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र प्रेमशंकर निवासी ग्राम नंगला खोखर थाना हयातनगर जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया।

2-दहेज हत्या के 03 आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2022 को वादी श्री बलवीर पुत्र स्व0 रामचन्द्र सिंह निवासी दुल्हापुर सबलपुर, थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित कर उसकी हत्या कर देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 354/22 धारा 498ए/304बी भादवि0 व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 15.07.2022 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से आरोपी 1-दिनेश कुमार डम्पी पुत्र ब्रजमोहन सिंह निवासी ग्राम टांडा अफजल थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद(पति) 2-पुष्पा देवी पत्नी ब्रजमोहन सिंह(सास) 3- निकेश पुत्र ब्रजमोहन सिंह निवासीगण ग्राम टांडा अफजल थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद(देवर) को गिरफ्तार किया गया।

3- चोरी की 02 मोटर साइकिल के साथ 03 वाहन चोर गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा वाहन चोरी/ बिक्री करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/तलाशी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,

मुरादाबाद एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, ठाकुरद्वारा के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.07.2022 को 03 अभियुक्तगण 1-रहीश पुत्र नन्हे निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद 2-शुयेब उर्फ मन्त्री पुत्र यामीन निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर, मुरादाबाद 3-मो0 आकिब पुत्र रहीश अहमद नि0 ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साईकिल बरामद की गयीं। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 228/22 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व धारा 420/411/467/468/471 भा0द0वि0 विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

- 1-रहीश पुत्र नन्हे निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
- 2-शुयेब उर्फ मन्त्री पुत्र यामीन निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
- 3-मो0 आकिब पुत्र रहीश अहमद नि0 ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

बरामदगी:

- 1-मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस रजि०नं० यूपी0 22 ए0एच0 6211
- 2-मोटरसाईकिल एचएफ डिलक्स रजि० नं0 यूपी0 22 ए0सी0 9785

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 सुधीर कुमार
- 2-उ0नि0 चन्द्रशेखर
- 3-का0 अनुज कुमार
- 4-का0 राजकुमार

4-थाना सोनकपुर के दुष्कर्म के अभियोग में सात वर्ष की सजा पाये मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद में अपील के उपरान्त करीब 28 वर्षों से फरार एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 15.07.2022 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद में विचाराधीन Criminal appeal No-1888/1988 Buddha versus u.p State of U.P Police station-Hazaratnagar ghari (Sonakpur) District Moradabad सम्बन्धित मु0अ0सं0 249/1985 धारा 363/342/376 भादवि , एसटी नम्बर 683/86 में सात वर्ष की सजा होने के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद से अपील स्वीकृति के पश्चात फरार अभियुक्त बुद्धा पुत्र रामचरन निवासी ग्राम नमैनी गद्दी थाना सोनकपुर (हजरतनगर गद्दी) जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद

से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद एवं पुलिस उपाधीक्षक बिलारी के कुशल मार्ग दर्शन में गठित टीम द्वारा अथक प्रयास कर अभियुक्त बुद्धा को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं हरिद्वार उत्तराखण्ड में ठहरने के सम्भावित स्थानों पर सघन तलाश करने के दौरान आज दिनांक 15.07.2022 को अभियुक्त बुद्धा उपरोक्त को रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा न्यायिक कार्यवाही से बचने एवं स्वयं को छिपाने के उद्देश्य से नाम एवं पता बदलकर बनवाये गये कूट रचित आधार कार्ड की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त बुद्धा उपरोक्त के विरूद्ध थाना सोनकपुर पर मु0अ0सं0 42/2022 धारा 420/468/471 भादवि पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण - कूट रचित आधार कार्ड।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- बुद्धा पुत्र रामचरन निवासी ग्राम नमैनी गद्दी थाना सोनकपुर (हजरतनगर गद्दी) जनपद मुरादाबाद उम्र 56 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 150/1984 धारा 13 जी एक्ट थाना हजरतनगर गद्दी (सोनकपुर) जनपद मुरादाबाद
- 2- मु0अ0सं0 249/1985 धारा 363/342/376डी भादवि थाना हजरतनगर गद्दी (सोनकपुर) जनपद मुरादाबाद (दिनांक 22.08.1988 को मा0 न्यायालय एडीजे0 3 मुरादाबाद से सात वर्ष का कारावास)
- 3- मु0अ0सं0 32/1987 धारा 302 भादवि थाना हजरतनगर गद्दी (सोनकपुर) जनपद मुरादाबाद (दिनांक 23.05.1988 को मा0 न्यायालय एडीजे0 3 मुरादाबाद द्वारा 20 वर्ष आजीवन कारावास)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री हम्बीर सिंह थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
- 2-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
- 3-का0 दिलशाद थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
- 4-का0 अनुराग त्यागी थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
- 5-का0 प्रशान्त कुमार साइबर सेल मुरादाबाद
- 6-का0 कपिल कुमार सर्विलान्स सेल मुरादाबाद

5-दिनांक 10/11.07.2022 की रात्रि मे पीली कोठी पर स्थित रॉयल इन्फील्ड आटो मोबाइल्स शोरूम मे हुई चोरी की घटना का थाना सिविल लाइन्स व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने सफल अनावरण कर 02 अभियुक्तों को चोरी के 6 लाख 57 हजार 500 रूपये व 02 मोबाइल सहित किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2022 को वादी श्री अंकुर सक्सैना पुत्र श्री कृष्ण कुमार सक्सैना निवासी आजाद नगर चन्द्र नगर थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद ने अज्ञात चोरों द्वारा उनके शोरूम व कैश ड्रायर का ताला तोडकर कैश ड्रायर मे रखे 07 लाख रूपये व दो मोबाइल (जिसमें सिम न0 7467028000, 7467023000) चोरी करे लेने के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स मु0अ0सं0 550/22 धारा 457/380 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन्स व सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गयी।

उक्त क्रम आज दिनांक 15.07.2022 को पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना सिविल लाइन्स पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1-सिद्धार्थ उर्फ भानू पुत्र श्री सुनील निवासी दौलतबाग वाल्मिकी वस्ती थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद 2- संजू उर्फ संजीव पुत्र मन्चे निवासी काशीराम नगर मझोला थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी की घटना मे चोरी किये गये 6,57,500/- नकद व 02 मोबाइल बरामद किये गये है।

पूछताछ का विवरण:-

गिफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त सिद्धार्थ उपरोक्त ने बताया कि वह रॉयल इन्फील्ड मिगलानी आटो मोबाइल्स शोरूम मे सफाई कर्मचारी के रूप मे काम करता था। दिनांक 19.06.2022 को कम्पनी वालो ने उसे नौकरी से निकाल दिया था उसे शोरूम लगे कैमरों व कैश कहा रखा जाता इसकी पूर्ण जानकारी थी। इसलिये उसने ने अपने साथी संजू उर्फ संजीव के साथ मिलकर खाली पडे खंडहर की तरफ से शोरूम मे ऊपर से जीने के रास्ते प्रवेश कर शोरूम के जीने के गेट को पेचकस व प्लास कि मदद से तोडकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उसी रास्ते से वापस वाहर निकल गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.अभि0 सिद्धार्थ उर्फ भानू पुत्र श्री सुनील निवासी दौलतबाग वाल्मिकी बस्ती थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।
2. अभि0 संजू उर्फ संजीव पुत्र मन्चे निवासी काशीराम नगर कालोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 550/22 धारा 457/380 भादवि

बरामदगी का विवरण:-

बरामद कुल धनराशि 06लाख 57 हजार 500 रूपये

1.अभि0 सिद्धार्थ उर्फ भानू के कब्जे से 03 लाख 30 हजार रू0 01 अदद पेचकस ,01 अदद प्लास व 01 जीयो का फोन रंग काला

2. अभि0 संजू उर्फ संजीव के कब्जे से 03 लाख 27 हजार 500 रू0

आपराधिक इतिहास अभि0 सिद्धार्थ उर्फ भानू

1.मु0अ0सं0 -550/22 धारा 457/380/411 भादवि

आपराधिक इतिहास अभि0 संजू उर्फ संजीव

1.मु0अ0सं0 -550/22 धारा 457/380/411 भादवि

अनावरण /गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.श्री गजेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स
- 2.श्री निरीक्षक अपराध अभयराज सिंह थाना सिविल लाइन्स
- 3.श्री राजीव शर्मा प्रभारी सर्विलान्स जनपद मुरादाबाद
- 4.उ0नि0 श्री दिलीप कुमार थाना सिविल लाइन्स
- 5.हे0का0244 गजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाइन्स
- 6.का0 1779 सुनील कुमार थाना सिविल लाइन्स
- 7.का0 3394 अंकित थाना सिविल लाइन्स
- 8.का0 1012 अरूण कुमार सर्विलान्स जनपद मुरादाबाद
- 9.का0 124 मनोज कुमार सर्विलान्स जनपद मुरादाबाद